



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Indira Gandhi Vidhan Bhawan,

Arera Hills, Bhopal (M.P.)

स मा चार

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम् बिरला से मिले प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा एवं प्रमुख सचिव विधानसभा .

संसदीय विद्यापीठ का संचालन विधानमंडल करे मध्य भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा विद्यापीठ - श्री ओम बिरला

दिनांक 19 जनवरी, 2021

मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा ने अपने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से सौजन्य भेंट की इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए पी सिंह भी उपस्थित रहे ।

श्री शर्मा ने भेंट के दौरान नवम्बर 2019 केवडिया में हुए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सफल आयोजन की बधाई दी इस दौरान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा केवडिया के विकास एवं उनके दूरदर्शी सोच पर चर्चा हुई . श्री शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया की मध्यप्रदेश में पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के भवन निर्माण हेतु विधानसभा परिसर के अंतर्गत 2 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है जिसका निर्माण प्रस्तावित है । शर्मा ने बताया कि संवैधानिक संस्थाओं में सफलता पूर्वक कार्य संपादित हो सकें इस पवित्र उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कुंजीलाल दुबे जी के नाम से संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई है । इसके साथ ही श्री शर्मा ने विधायक विश्राम गृह निर्माण निर्माण की जानकारी श्री बिरला को दी । लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि निश्चित रूप से संसदीय विद्यापीठ के माध्यम से संसदीय परम्पराओं को बढ़ाने उनके महत्व के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी ज़िला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद, विधानसभा हो या विधान परिषद इनका सुचारु और सफल संचालन होना चाहिए . लोकतंत्र की मजबूती के लिए मध्य भारत में यह विद्यापीठ निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा . अध्यक्ष जी ने संसदीय विद्यापीठ के निर्माण एवं संचालन में हर सम्भव मदद करने के लिए आश्वस्त किया है साथ ही उन्होंने भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यापीठ का निर्माण शासन एवं विधानमंडल से किया जाए परंतु लोकतंत्र की मर्यादाओं एवं परम्पराओं के लिए यह बेहतर होगा कि विद्यापीठ का संचालन एवं संवर्धन विधानमंडल द्वारा ही किया जाए । जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं पोषण मिलता रहे ।

वि.स./ज.स./20

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव

दूरभाष : जनसंपर्क शाखा: (+91-755) 2523065, 2523028, 2440221 फैक्स: (+91-755) 2440238

ई-मेल : vidhansabha-mp@nic.in वेबसाइट : <http://www.mpvidhansabha.nic.in>